

मनीला □ अफगानिस्तान की पहली व □ क्मात्र महिला गवर्नर और म्यांमा में कचीन अल्पसंख्यक समुदाय की मानवाधिकार कार्यकर्ता इस साल मैगसेसे पुरस्कार जीतने वालों की सूची में शामिल हैं □

मनीला स्थिति रैमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन ने बुधवार को यह जानकारी दी □ इस पुरस्कार का नाम फिलीपीन केलोकप्रिय राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है □ उनकी विमान हादसे में मौत हो गई थी □ वर्ष 1957 में स्थापित यह फाउंडेशन □ शिया में समुदायों की बेहतरी के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करती है □

फाउंडेशन ने कहा कि अफगानिस्तान के बमयान प्रांत की गवर्नर हबीबा सराबी और म्यांमा की मानवाधिकार कार्यकर्ता लाहपाइ सेंग रॉ को उनका अल्पसंख्यक होना अन्य समुदाय के सशक्तिकरण के लिए उनके काम करने से रोक नहीं सकता □ अल्पसंख्यक हजारों समुदाय से आने वाली 55 वर्षीय सराबी को गरीबी से जूझ रहे और युद्ध के कारण देश की जरूरत पर स्थितियों के बावजूद शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ा देने की दृष्टि में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया □ बाकी पेज 12 पर उद्धमल्ल ३२४ ३३३ मरी १२

म्यांमा के सबसे बड़े सविलि सोसायटी समूह की संस्थापक लाहपाइ सेंग रॉ को सैन्य संघर्ष के बीच सभी समुदाय के लोगों की मदद करने के लिए चुना गया है □ उनकी संस्था कचीन राज्य में लोगों को स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध सुविधा, मुहैया कराती है और शांति परियोजना चलाती है □

कचीन के अल्पसंख्यक समुदाय की 64 वर्षीय सेंग रॉ ईसाई धर्म मानती हैं □ उन्हें सरकार और विद्रोहियों के लिए काम करने पर सम्मानित किया गया □

फाउंडेशन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सम्मानित होने वालों की सूची में - फिलीपीन में स्वास्थ्य सुविधा, मुहैया कराने वाली संस्था के मेडिकल अनुसंधानकर्ता रनेस्टो डोमिंगो, मानव-तस्करी रोकने के लिए काम करने वाली नेपाली संस्था 'शक्ति समूह' और इंडोनेशिया की भ्रष्टाचार वरिधी संस्था 'केमसिा पेम्बेरातंसन केरूपसी (भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति) भी शामिल हैं □ इन सभी को 31 अगस्त को कसमारोह में सम्मानित किया जा □ गा □ फाउंडेशन की अध्यक्ष क्रमेन्सिता अबेला ने कहा, 'मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी लोग अपने-अपने समाज में दुरुह समझी जाने वाली समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान नकिलने में बेहद गंभीरता से जुटे हुए हैं' (□ □ फ्री) □